

## पुलिस ने आरोपितों पर कसा शिकंजा, 404 नकली सिम कार्ड बरामद



Publish Date: Fri, 06 Aug 2021 06:52 PM (IST) Author: **Prateek Kumar**

आरोपित की पहचान हरि नगर निवासी धर्मेन्द्र के रूप में हुई है। पुलिस को आरोपित के पास से एक मोबाइल व एक बटनदार चाकू बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मेरी कॉलेज के पास पिकेट जांच के दौरान सूत्रों से मिली जानकारी की मदद से आरोपित को दबोचा।

**नई दिल्ली, जागरण संवाददाता।** पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर थाना पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड के तस्कर को दबोचा है। पुलिस ने आरोपित के पास से 404 नकली सिम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपित की पहचान हरि सिंह के रूप में हुई है। उधर, मायापुरी थाना पुलिस ने एक झपटमार को दबोचा है। आरोपित की पहचान हरि नगर निवासी धर्मेन्द्र उर्फ संदीप के रूप में हुई है। पुलिस को आरोपित के पास से एक मोबाइल व एक बटनदार चाकू बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मेरी कॉलेज के पास पिकेट जांच के दौरान सूत्रों से मिली जानकारी की मदद से आरोपित को दबोचा। वहीं, पंजाबी बाग थाना पुलिस ने भी दो झपटमारों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान विक्रम व शकरपुर निवासी रोशन के रूप में हुई है।

### महिला यात्री के पास मिला कारतूस

इधर, पश्चिमी दिल्ली के डाबड़ी मेट्रो स्टेशन पर एक महिला यात्री के पास कारतूस बरामद हुआ। बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे जब महिला मेट्रो स्टेशन में प्रवेश से पहले अपने सामान की जांच करा रही थी तब सुरक्षाकर्मियों की नजर कारतूस पर पड़ी। जब इस बाबत महिला से पूछताछ की तो पता चला कि वह मदनपुरी वेस्ट की रहने वाली है। महिला कारतूस के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी। महिला के पास कारतूस का कोई दस्तावेज भी नहीं था। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।

### हत्या के मामले में चल रहा था फरार, धरा

वहीं, बिंदापुर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपित मोहित को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पिछले वर्ष 11 सितंबर को डीडीयू अस्पताल में अमित नामक शख्स को भर्ती कराया गया था। उन पर चाकू से वार किया गया था। उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई थी। इसके बाद हत्या के मामले में पुलिस ने घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। मामले में तीन नाबालिग भी पकड़े गए थे। केवल मोहित फरार चल रहा था।

Source: <https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-police-tightened-the-noose-on-the-accused-404-fake-sim-cards-recovered-21901534.html>